

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2015 (कार्तिक 16, 1937)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2015 (KARTIKA 16, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

बैंकिंग वि. पी. एस. बी. डी. सं. 5270/16.01.0146/2015-16—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने निदेश देता है :

आइ. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड
नमन चेम्बर्स
सी-32, जी-ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई— 400 051

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 13th October 2015

DBR.PSBD.No. 5270 /16.01.0146/2015-16—In pursuance of clause (a) of sub- section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

IDFC Bank Limited
Naman Chambers
C-32, G-Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in